

T

Roll No. ....

Total Pages : 5

BCE/A-19

**21006**

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING  
COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MYSORE

**BASIC OF COMPUTERS**  
(Theory)

Paper : BC-106

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 60

**Note :** Attempt *five* questions in all, selecting at least *one* question but not more than *two* questions from any unit. All questions carry equal marks.

**NOTE :** प्रत्येक इकाई से कम-से-कम एक प्रश्न और अधिक से अधिक वाले प्रश्नों का चयन करते हुए, जुल याँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

### **UNIT-I (इकाई-I)**

1. (a) What is Primary memory of a computer system ? Why primary memory is small in size and temporary ? 6  
(b) Describe the uses of a computer system in education and business.  
  
(क) कम्प्यूटर की प्राथमिक मैमोरी क्या है? प्राथमिक मैमोरी आकार में छोटी और अस्थायी क्यों होती है?  
(ख) शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग का वर्णन कीजिए।
2. Write short notes on the following Input/Output devices :  
(a) Laser printer.  
(b) MICR.

(c) OMR.

(d) Plotter.

निम्नलिखित इनपुट/आउटपुट युक्तियों पर संक्षेप नोट लिखिए :

(क) सेलर प्रिंटर।

(ख) एम.आई.सी.आर. (MICR)।

(ग) ओ.एम.आर. (OMR)।

(घ) प्लॉटर (Plotter)।

3. (a) What is Compact Disk (CD) ? Describe data organisation, characteristics and limitations of a CD diskette.

(b) Define Application software ? Give names of any three popular application softwares used commonly.

(क) कोम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? सी.डी. डिस्केट के डेटा सांचन, विशेषताओं और सीमाओं का वर्णन कीजिए।

(ख) ऐलीकेशन को परिभ्रष्ट कीजिए। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले किन्हीं तीन लोकप्रिय ऐलीकेशन सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए।

(क) निम्न कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए :

(अ) ए.एल.यू. (अंकगणितीय तर्क इकाई)।

(ब) नियंत्रण इकाई (सी.यू.)।

(ख) कम्प्यूटर प्रणाली की किन्हीं चार विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए।

## UNIT-II (इकाई-II)

5. Explain the following components of Windows operating system :

- (a) Window Explorer.
- (b) Window Desktop.
- (c) Recycle bin.
- (d) Notepad Editor.

विंडोज ऑपरेटिंग प्रणाली के निम्नलिखित अवयवों का वर्णन कीजिए :

(क) विंडोज एक्सप्लोरर।

(ख) विंडोज डेस्कटॉप।

(ग) पुनर्वर्कण बिन।

(घ) नॉटेपैड संपादक।

4. (a) Explain working of

(i) ALU (Arithmetic Logical Unit).

3

(ii) Control Unit (CU).

3

(b) Elaborate any four characteristics of a computer system.

6

6. (a) Elaborate formatting features available in a modern Word processing package (i.e., MS-Word) ?

6

(b) What is Electronic spreadsheet package ? Write chart features of an electronic spreadsheet package.

6

(क) आधुनिक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज (अर्थात् एम.एस.-वर्ड) में उपलब्ध स्वरूपण सुविधाओं का विस्तृत चर्णन कीजिए।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज क्या हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज के चार्ट की विशेषताओं को लिखिए।

7. Explain the following with working and features :

- (a) Android Operating System. 6  
(b) Utility Software. 6

कार्यप्रणाली और नियोजनाओं के साथ निम्न की व्याख्या कीजिए :

- (क) एड्झेप ऑपरेटिंग प्रणाली।  
(ख) डिप्युटी ऑफिस ऑफिसियल।

### UNIT-III (इकाई-III)

8. (a) What is Internet ? How does it work ? 6

- (b) Describe star topology for networking, and write its advantages and limitations. 6

- (क) इंटरनेट क्या है? यह कैसे कार्य करता है?  
(ख) नेटवर्किंग के लिए स्टार टोपोलॉजी का वर्णन कीजिए। इसके फायदों और सीमाओं को लिखिए।

9. (a) Compare between LAN (Local area network) and WAN (Wide area network). 6  
(b) Write a note on Web browser and Web server. 6

(क) एल.ए.एन. (ताकिंक क्षेत्र नेटवर्क) और डब्ल्यू.ए.एन. (वाइड क्षेत्र नेटवर्क) में तुलना कीजिए।

(ख) वेब शाऊर और वेब सर्वर पर एक नोट लिखिए।

10. Explain the following terms :

- (a) URL (Uniform Resource Locator).  
(b) WWW (World Wide Web).  
(c) E-governance and its benefits.  
नियन्त्रित शब्दों की व्याख्या कीजिए :  
(क) यू.आर.एल. (यूनिकोर्स संसाधन लोकेटर)  
(ख) डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. (वर्ल्ड वाइड वेब)  
(ग) ई-शासन और इसके लाभ।